



Classification: Official  
Publications approval reference: C1321

## कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध है और संक्रामक रोगों से बचाव करना आपका अधिकार है

यूके में कोविड-19 वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त है। इसमें सभी प्रवासी भी शामिल हैं।

यूके में लाखों लोगों ने अपना कोविड-19 टीकाकरण करा लिया है। यह सुरक्षित है और इसमें कोई जानवर का या हानिकारक तत्व नहीं हैं। यह कोविड-19 से होने वाली मृत्यु या गंभीर बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है।

**कोविड-19 टीका प्राप्त करने के लिए आपके पास GP या NHS नंबर होना आवश्यक नहीं है।**

**यदि आपके पास NHS नंबर नहीं है** तो आप टीके की व्यवस्था करने के लिए अपनी स्थानीय जीपी सर्जरी से संपर्क कर सकते हैं या किसी कोविड-19 टीकाकरण वॉक-इन सेंटर या पॉप-अप सेंटर में जा सकते हैं।

**यदि आपके पास NHS नंबर है**, तो जब आपको आपके टीके के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो हम आपको इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

यह तय करने में आपकी मदद करने के लिए कि आपके और आपके साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्या है, हम आपको कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी देंगे और आप इसके बारे में स्वास्थ्य कर्मचारियों से पूछ सकते हैं।

आपको कभी भी कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए **मजबूर नहीं किया जाएगा** और यह आपकी शरण या शरणार्थी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है।

कोविड-19 के परीक्षण, उपचार या टीकाकरण के लिए **किसी इमीग्रेशन जांच की आवश्यकता नहीं है**।

कोविड-19 के खिलाफ सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए आपको आमतौर पर कोविड-19 वैक्सीन की **दो खुराक लेने की ज़रूरत** होती है।

**एक बार जब आप अपना टीका लगवा लेते हैं** तो आपको अपने टीके के बारे में जानकारी के साथ एक कार्ड दिया जाएगा, यदि आप कर सकते हैं, तो जब आप अपने दूसरे टीकाकरण के लिए जाएं तो यह कार्ड साथ लेकर जाएं। यदि आपको यह कार्ड नहीं दिया जाता है, तो कृपया यह मांगें।

आप अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं:

- [COVID-19 guide for older adults](#)
- [NHS England COVID-19 vaccination communication materials](#)
- [COVID-19 vaccination for women of childbearing age, pregnant, planning a pregnancy or breastfeeding](#)
- [COVID-19 easy read resources](#)
- [Doctors of the World UK COVID-19 vaccination information](#)

## क्या मैं किसी जीपी के पास पंजीकरण कर सकता/सकती हूँ?

यूके में **कोई भी** व्यक्ति जीपी के साथ पंजीकरण करने का चुनाव कर सकता है। आपका जीपी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है।

आपसे आपके पते का प्रमाण या आईडी की मांग की जा सकती है।

**यदि आपके पास अपने पते का प्रमाण या आईडी नहीं है**, तो उन्हें बताएं कि आपके पास यह नहीं है। आप फिर भी किसी जीपी के साथ पंजीकरण कर सकते हैं।

**यदि आपके पास पते का प्रमाण और आईडी है**, तो यदि आप कर सकते हैं तो इसे प्रदान करने की कोशिश करें। आपके डॉक्टर के पास आपके और आपके स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी है वह **गोपनीय** है।

अगर आपको यह मददगार लगता है, तो जब आप पंजीकरण करते हैं तो आप जीपी प्रैक्टिस को यह पत्र दिखा सकते हैं।

जीपी को खोजने या पंजीकरण करने में अधिक सहायता के लिए, अपने हाउसिंग वर्कर से बात करें या 0300 311 2233 पर कॉल करें। आपको अधिक जानकारी [NHS website](#) और [GP access cards](#) से मिल सकती है

आपका/आपकी विश्वसनीय



### **Dr Nikki Kanani**

Deputy SRO, COVID-19 Vaccination  
Deployment Programme  
Medical Director of Primary Care  
**NHS England and NHS Improvement**

This letter is translated into Hindi.

This letter is also available in English and translated into Bengali, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Chinese, Czech, Estonian, Farsi, Greek, Gujarati, Latvian, Lithuanian, Punjabi, Polish, Romanian, Romani, Russian, Spanish, Somali, Turkish, Twi, Ukrainian and Urdu.